

‘मलावट से मुक्त अभियान’ के तहत दूध टेस्टिंग की सुवधा

चर्चा में क्यों?

6 मार्च, 2022 को मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान के जन्म-दविस पर एमपी स्टेट को-ऑपरेटवि डेयरी फेडरेशन लमिटिड द्वारा प्रदेश में 1600 साँची मलिक पार्लर पर ‘मलावट से मुक्त अभियान’ में दूध टेस्टिंग की सुवधा का शुभारंभ कया गया ।

प्रमुख बदि

- दूध में मलावट की जाँच के लयि सभी साँची पार्लरस पर टेस्टिंग कटि उपलब्ध कराई गई है । टेस्टिंग कटि में यूरया, डटिर्जेंट/साबुन, माल्टोज़, गलूकोज़, सुक्रोज़ की जाँच करने की स्ट्रपि उपलब्ध कराई गई है, जसिसे उपभोक्ता तुरंत ही दूध में मलावट की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शविराज सहि और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने 11 नवंबर, 2020 को राजधानी भोपाल से प्रदेश में ‘मलावट से मुक्त अभियान’ की शुरुआत की थी ।
- इस अभियान के तहत वर्तमान में 15 चलति प्रयोगशालाएँ चलाई जा रही हैं । प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने 8 फरवरी, 2022 को छदिवाड़ा, नीमच और भडि के लयि तीन नई चलति प्रयोगशालाओं की सौगात दी थी ।
- इन चलति प्रयोगशालाओं में नागरकि 10 रुपए के शुल्क में आसानी से खाद्य पदार्थों की जाँच करा सकते हैं ।